

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2024-वैशाख 13, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

It is for general information that I, Mahesh Kumar Dhurwey (real name) S/o Lallu Singh, residing Village-Medhakhar, Post-Medhakhar, Tehsil-Bajag, District-Dindori, M.P. declare that name of my minor daughter has been wrongly written NITYADHURWEY in my minor daughter NITYADHURWEY, aadhar card. The actual name of my minor daughter is NILAKSHI DHURWEY respectively which may be amended accordingly.

Applicant

(MAHESH KUMAR DHURWEY)

(G-925)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गुरु डवलपर्स, 2nd फ्लोर सी-6, सूर्या टॉवर, नियर ओल्ड हाईकोर्ट, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00300-13, दिनांक 23-3-2013 है. जिसमें दिनांक 4-12-2023 को सुनील खण्डूजा पुत्र श्री उत्तम चंद खण्डूजा एवं राजकुमार खण्डूजा पुत्र श्री लख्मी चंद खण्डूजा को सभी भागीदारों की सहमति से नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है.

M/s Guru Developers,

(बृजेश श्रीवास्तव)

Partner.

(G-926)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एपीएस कम्प्लीट सॉल्यूशन द्वारा महेंद्र सिंह, गोपाल नगर, गदाईपुरा, नियर बीजासेन माता मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0368-21, दिनांक 18-3-2021 है. जिसमें दिनांक 14-4-2024 को भागीदार हरेन्द्र यादव पुत्र श्री देवीसिंह यादव एवं आकाश शर्मा पुत्र श्री सुरेश शर्मा फर्म से सभी भागीदारों की सहमति एवं अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं.

M/s APS Complete Solutions,
(प्रदीप सिंह)
Partner.

(G-927)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अंकित एंटरप्राइजेज, पता प्लॉट नंबर -32, सेक्टर- बी, इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा, भोपाल पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0115-21, दिनांक 23-3-2021 पर पंजीयत है. उक्त फर्म में क्रमशः श्री अंकित शर्मा, श्री सरदार हरबक्स सिंह एवं श्री कर्मजोत सिंह भागीदार रहे हैं. दिनांक 1-4-2023 से श्री अंकित शर्मा फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा उक्त दिनांक से उनका फर्म एवं उसके कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं रहा है. उक्त दिनांक के पश्चात् श्री अंकित शर्मा द्वारा किये गये कार्यों के लिये फर्म अथवा उसके अन्य भागीदार उत्तरदायी नहीं हैं और न ही फर्म अथवा उसके अन्य भागीदारों द्वारा किये गये कार्यों के लिए श्री अंकित शर्मा उत्तरदायी हैं. श्री अंकित शर्मा के दिनांक 1-4-2023 से पृथक् होने के पश्चात् उक्त फर्म का संचालन श्री सरदार हरबक्स सिंह एवं श्री कर्मजोत सिंह के द्वारा किया जा रहा है. उपरोक्त के साथ ही दिनांक 1-4-2023 से उक्त फर्म का नाम मेसर्स हैवी ब्लॉक कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं पता प्लाट नं. 56, सेक्टर ई, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरोदा भोपाल 462026 हो गया है.

FOR-Heavy Block Construction Company,
(सरदार हरबक्स सिंह)
Partner.

(G-928)

PUBLIC NOTICE

(U/s. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Fortune Finance, Registered office at 31, Janki Nagar Annex, Indore 452001 (M.P.) and Registration No is 03-27-01-0023-24 dated 18-4-2024, which was constituted vide Partnership deed executed on 27-7-2015.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred from 21st October 2023, now both the running partners (1. Shri Govinda Kakani and 2. Shri Suresh Kumar Kakani) have decide to change the name and address of the firm. Name from Fortune Finance to Fortune Associates and address from 31, Janki Nagar Annex, Indore 452001 (M.P.) to 49 Empire Estate, Bicholi Mardana, bypass Road, Indore 452016 (M.P.).

M/S. Fortune Associates,
(GOVINDA KAKANI)
Partner.

(G-929)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आलोक शुक्ला पुत्र श्री अभय शुक्ला, निवासी- 309ए, सुदामा नगर, इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दर्श शुक्ला है, आधारकार्ड में त्रुटिवश अदयंत शुक्ला अंकित हो गया है. अब मेरा पुत्र अपने नये नाम दर्श शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जायेगा. सभी शासकीय या अर्ध शासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दर्श शुक्ला रहेगा.

पुराना नाम
(अदयंत शुक्ला)

नया नाम
(दर्श शुक्ला)
(DARSH SHUKLA)
पुत्र-श्री आलोक शुक्ला.

(G-930)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Mohit Construction Registered office at 34-B Santram Sindhi Colony Ujjain (M.P.) and Registration No. is 07-33-01-0008-24 dated 15-4-2024, which was constituted vide Partnership deed executed on 22/03/2013. In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 5-6-2017, 1. Shri Sunny Tharwani S/o. Shri Subhash Tharwani and 2. Shri Sunny Choudhary S/o. Shri Lajpat Choudhary have voluntarily retired from the Partnership firm and 1. Shri Mohit Makhija S/o. Shri. Kamal Makhija and 2. Shri Badal Makhija S/o. Shri Ishwar Makhija have joined the firm as a new partner. Now 1. Shri Mohit Makhija and 2. Shri Badal Makhija are the running Partners of the Partnership firm.

M/S. Mohit Construction,
(**MOHIT MAKHIJA**)
Partner.

(G-931)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम आरिफा इकबाल (आरिफा शेख पिता इकबाल शेख) जो मेरे विवाह से पूर्व का नाम था एवं मेरे शैक्षणिक दस्तावेज एवं शेयर सर्टिफिकेट्स पर भी दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा विवाह के बाद का नाम आरिफा खान पति मोहम्मद सोहेल खान दर्ज है, अब मुझे नए नाम आरिफ खान पति मोहम्मद सोहेल खान के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. आरिफा इकबाल, आरिफा शेख पिता इकबाल शेख, आरिफा खान पति मोहम्मद सोहेल खान एक ही व्यक्ति के नाम हैं यानी की मेरे भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में आरिफा खान पति मोहम्मद सोहेल खान के नाम जाना-पहचाना, लिखा पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(आरिफा)
पिता-इकबाल शेख

नया नाम
(आरिफा खान)
पति-मोहम्मद सोहेल खान,
निवासी-21, अली कॉलोनी, खजराना,
इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-932)

नाम परिवर्तन

मैं, अजय जैन सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरी पुत्री का नाम तानी जैन (Tani Jain) है. हम उसका नाम परिवर्तित कर आरोही जैन (Aarohi Jain) करना चाहते हैं. प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री को आरोही जैन (Aarohi Jain) के नाम से सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(तानी जैन)
(TANI JAIN)

नया नाम
(आरोही जैन)
(AAROHI JAIN)
पता-C/o अजय जैन, C-2, जीवन आनंद,
LIC ऑफिसर्स क्वार्टर्स
गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-933)

नाम परिवर्तन

मैं, रजनीश गुप्ता आत्मज श्री रामकिशोर गुप्ता मेरे पुत्र का नाम समस्त दस्तावेजों में काव्य गुप्ता दर्ज है। मैं, उसका नाम परिवर्तन कर नया नाम कार्तिक गुप्ता कराना चाहता हूँ, यह कि काव्य गुप्ता एवं कार्तिक गुप्ता दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं याने की मेरे पुत्र के प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र को समस्त शासकीय/अर्धशासकीय प्रपत्रों में कार्तिक गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(काव्य गुप्ता)

(G-934)

नया नाम
(कार्तिक गुप्ता)

आत्मज-रजनीश गुप्ता,
निवासी-1648/1, जय नगर लेबर चौक के पास,
गढ़ा रोड, जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रतीराम पुत्र अमर लाल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम गोपाल था। जो मेरे शासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे रतीराम पुत्र अमर लाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है जो मेरे आधारकार्ड, शासकीय, अशासकीय इत्यादि प्रपत्रों में लिखा गया है। गोपाल एवं रतीराम दोनों मेरे ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम गोपाल के स्थान पर रतीराम पुत्र अमर लाल लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(गोपाल)

(G-935)

नया नाम
(रतीराम)

पुत्र-अमर लाल,
ग्राम केमरा कला माजरा भूरा पुरा,
सबलगढ़, मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियंका रावत (PRIYANKARAWAT) पत्नी ब्रह्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ, कि मेरा पूर्व का नाम अंतिमा रावत (ANTIMARAWAT) था। जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं जन्म प्रमाण पत्र में लिखा, गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे प्रियंका रावत पत्नी ब्रह्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है। जो मेरे आधारकार्ड, शासकीय, अशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम अंतिमा रावत के स्थान पर प्रियंका रावत लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(अंतिमा रावत)
(ANTIMARAWAT)

(G-936)

नया नाम
(प्रियंका रावत)

पत्नी-ब्रह्मा,
पता-बौहरे का पूरा कैमरा कलां,
मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, शालिनी देवी कुशवाह (SHALINI DEVI KUSHWAH) पत्नि राम अवतार सिंह सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ, कि मेरे घर का नाम शैलू (SHAILU) था। जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे शालिनी देवी कुशवाह पत्नी राम अवतार सिंह के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो मेरे आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैंक खाता इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम शैलू के स्थान पर शालिनी देवी कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
(शैलू)
(SHAILU)

(G-937)

नया नाम
(शालिनी देवी कुशवाह)

पत्नी-राम अवतार सिंह,
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश (PRAKASH) पुत्र विजय बहादुर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम राम प्रकाश ओझा (RAMPRAKASH OJHA) था. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, प्रकाश पुत्र विजय बहादुर के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधारकार्ड, शासकीय अशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है. राम प्रकाश ओझा एवं प्रकाश दोनों मेरे ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मेरा नाम राम प्रकाश ओझा के स्थान पर प्रकाश लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(राम प्रकाश ओझा)

नया नाम
(प्रकाश)
पुत्र-विजय बहादुर,
ग्राम बझाई, भिंड (म.प्र.).

(G-938)

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप भंडारी (Sandeep Bhandari) पुत्र श्री पदम कुमार भंडारी जैन, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम संदीप भंडारी (Sandeep Bhandari) पुत्र श्री पदम कुमार भंडारी है. जो की सही है, परंतु मेरे शैक्षणिक एवं कुछ प्रपत्रों में मेरा नाम संदीप जैन (Sandeep Jain) पुत्र श्री पदम कुमार जैन अंकित है. संदीप भंडारी एवं संदीप जैन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं यानी की मेरे भविष्य में मुझे संदीप भंडारी (Sandeep Bhandari) पुत्र श्री पदम कुमार भंडारी जैन के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(संदीप जैन)
(SANDEEP JAIN)

नया नाम
(संदीप भंडारी)
(SANDEEP BHANDARI)
जैन पुत्र-श्री पदम कुमार भंडारी जैन,
मकान नं. 5, कोतवाली रोड, मौलाना आजाद स्कूल के पास
कोतवाली रोड, भोपाल, (म.प्र.).

(G-939)

नाम परिवर्तन

मैं, सूरज प्रसाद (SURAJ PRASAD) पुत्र सीताराम सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी शासकीय सर्विस बुक में मेरा नाम SOORAJ लिख गया है. जो कि गलत है. जबकि मेरे सभी प्रपत्रों जैसे आधार कार्ड शासकीय/अशासकीय अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम SURAJ लिखा गया है. जो कि सत्य व सही है. अतः मेरी शासकीय सर्विस बुक में मेरा सही नाम SURAJ लिखा एवं पढ़ा दर्ज किया जावे.

सूचनाकर्ता
(सूरज प्रसाद)
(SURAJ PRASAD)

पुत्र सीताराम
पता-170, गथाई मौहल्ला दबोह देवरी कलां,
भिण्ड (म.प्र.).

(G-940)

नाम परिवर्तन

मैं, चुन्नी पवार (Chunnee Pawar) सर्वसाधारण को सचित करता हूँ की मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम चुन्नी पवार (Chunnee Pawar) पुत्र हरीराम पवार है। वर्तमान में मुझे संदीप पवार पुत्र हरीराम पवार के नाम से जाना-पहचाना जाता है। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे संदीप पवार (Sandeep Pawar) पुत्र हरीराम पवार के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(चुन्नी पवार)
(CHUNNEE PAWAR)
पुत्र-हरीराम पवार

नया नाम
(संदीप पवार)
(SANDEEP PAWAR)
पुत्र-हरीराम पवार
पता-छिंदखेड़ा, तहसील मुल्ताई,
बैतूल (म.प्र.)

(G-941)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S SWASTIK INFRASTRUCTURE जो 32/35, Behind Gurudwara Commissioner Colony, Morena (M. P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-44-01-0097-16 दिनांक 21-10-2016 है। जिसमें दिनांक 01-10-2017 को भागीदार श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी-64, कटरासेवा, काली इटावा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 01-01-2024 को भागीदार श्री भूपेंद्र गुर्जर पुत्र बजरा सिंह गुर्जर, निवासी-डी-एच-62, डी. डी. नगर, ग्वालियर, म. प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 1-1-2024 को महेश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा, निवासी-32/35, Behind Gurudwara Commissioner Colony, Morena (M. P.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

M/S SWASTIK INFRASTRUCTURE,
32/35, Behind Gurudwara Commissioner Colony,
Morena (M. P.)
(चन्द्रकांत शर्मा)
भागीदार.

(G-942)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में सलूजा ट्रांसपोर्ट को (M/s SALUJA TRANSPORT CO.) के नाम से एक भागीदारी फर्म है। जिसका पंजीयन क्र. 04-17-03-0335-19 दिनांक 15-03-2019 है।

इस फर्म से दिनांक 01-04-2024 से दो भागीदार (1) श्री स. वरुण सिंह सलूजा पिता स. मनजीत सिंह सलूजा, निवासी-वार्ड नं. 08, हाउस नं. 147, मेन रोड, परासिया, छिन्दवाड़ा, तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.), (2) श्रीमति पलक सलूजा पति स. वरुण सिंह सलूजा, निवासी-वार्ड नं. 08, हाउस नं. 147, मेन रोड, परासिया, छिन्दवाड़ा, तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) शामिल हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 1-4-2024 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड वार्ड नं. 08, मेन रोड, परासिया, छिन्दवाड़ा, तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) स्थित है।

M/s SALUJA TRANSPORT CO.,
(स. मनजीत सिंह सलूजा)
पार्टनर.

(G-943)

नाम परिवर्तन

मैं, आर. एन. राजाशेखर आत्मज आर. नारायणस्वामी (R N RAJASHEKAR) है। सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम आर एन राजाशेखर आत्मज आर नारायणस्वामी (R N RAJASHEKAR)

अंकित है जो कि सही है परंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटि से आर एन राजशेखर आत्मज आर नारायणस्वामी (R N RAJASEKAR) दर्ज हो गया है जो कि गलत है. प्रकाशन उपरांत मुझे आर एन राजाशेखर आत्मज आर नारायण स्वामी (R N RAJASHEKAR) के नाम से ही जाना, पहचाना, पुकारा, पढ़ा एवं लिखा जाए.

पुराना नाम
आर एन राजशेखर (R N RAJASEKAR)
(G-944)

नया नाम
आर एन राजाशेखर (R N RAJASHEKAR)
आत्मज आर नारायणस्वामी,
निवासी-मकान नंबर पी-17, प्रियदर्शनी, पेरामाउन्ट,
आशिमा मॉल के पीछे, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

मैं, अमित कुमार सोनी तनय श्री वनमाली प्रसाद सोनी, सिद्धार्थ नगर, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना, (म. प्र.) मेरी पुत्री का नाम शनाया सोनी (Shanaya Soni) है लेकिन त्रुटिवश पुत्री के आधार कार्ड में घरेलू नाम मंजरी सोनी (Manjari Soni) दर्ज हो गया है. शनाया सोनी व मंजरी सोनी एक ही व्यक्ति के नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम शनाया सोनी (Shanaya Soni) जाना एवं पहचाना जावे एवं आधार कार्ड में मंजरी सोनी के स्थान पर सही नाम शनाया सोनी पिता श्री अमित कुमार सोनी दर्ज किया जाए.

(G-945)

प्रार्थी
अमित कुमार सोनी

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय बारंगे पुत्र श्री पन्नालाल बारंगे, निवासी अम्बेडकर वार्ड, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.).

मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अनुज बारंगे (ANUJ BARANGE) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गतीश बारंगे अंकित हो गया है. अब मेरा पुत्र अपने नये एवं वास्तविक नाम अनुज बारंगे (ANUJ BARANGE) के नाम से जाना पहचाना जायेगा, सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

(G-946)

विजय बारंगे
पिता.

CHANGE OF NAME

I, ZAHRA RAJ have changed my name to ZAHRA BHOPALWALA D/O NAJMUDDIN BHOPALWALA and now I would be known as ZAHRA BHOPALWALA D/O NAJMUDDIN BHOPALWALA.

Old Name
(ZAHRA RAJ)

New Name
(ZAHRA BHOPALWALA)
Add-59-D, HASANJI NAGAR,
RAU, DIST. INDORE. (M.P.)

(G-947)

CHANGE OF NAME

I ALOK TRIPATHI D/O RAM GOPAL TRIPATHI have changed my name to ALOK TALWAR W/O BHRIGU TALWAR and now I would be known as ALOK TALWAR W/O BHRIGU TALWAR.

Old Name
(ALOK TRIPATHI)

New Name
(ALOK TALWAR)
Add-D-9, VISTARA COLONY,
NEAR DELHI PUBLIC SCHOOL,
ARANDIA BYPASS, INDORE. (M.P.)

(G-948)

CHANGE OF NAME

I, NEHA BAJAJ D/o OM PRAKASH BAJAJ have changed my name to JANVI JAISINGHANI W/o RITESH JAISINGHANI and now I would be known as JANVI JAISINGHANI W/o RITESH JAISINGHANI.

Old Name

(NEHA BAJAJ)

New Name

(JANVI JAISINGHANI)

Add-FLAT No. 101, SUNDAR RAJ,
RATNA APPT. 107, SHRI KRISHNA AVENUE,
LIMBODI, KHANDWA ROAD,
INDORE (M.P.)

(G-949)

CHANGE OF NAME

I, NAZMA KHATUN D/o LIYAKAT ALI have changed my name to NAZMA AHMED W/o RIYAZ AHMED and now I would be known as NAZMA AHMED W/o RIYAZ AHMED.

Old Name

(NAZMA KHATUN)

New Name

(NAZMA AHMED)

Add-BADWALI CHOUKI,
54/55, SUBHASH MARG, DHARUV COMPLEX,
F.No.204. INDORE (M.P.)

(G-950)

नाम परिवर्तन

मैं, सृष्टि तेहनगुरिया पुत्री श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया, निवासी-बीनस-5, मीनाक्षी प्लानेट सिटी, बागमुगालिया भोपाल यह घोषित करती हूँ कि मेरे द्वारा अब अपना नाम बदलकर आलिया तेहनगुरिया कर लिया गया है. अतः भविष्य में मुझे आलिया तेहनगुरिया के नाम से जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सृष्टि तेहनगुरिया)

नया नाम

(आलिया तेहनगुरिया)

(G-951)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम भोला पंडित आत्मज श्री रामचन्द्र पंडित (BHOLA PANDIT S/o RAM CHANDRA PADIT) था जो कि मेरी मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है किंतु अब मेरा नाम परिवर्तित होकर शिवम प्रजापति (SHIVAM PRAJAPATI S/o RAM CHANDRA PADIT) हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवम प्रजापति (SHIVAM PRAJAPATI) के नाम से जाना व पहचाना एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

(भोला पंडित)

BHOLA PANDIT

नया नाम

(शिवम प्रजापति)

(SHIVAM PRAJAPATI)

S/o RAM CHANDRA PADIT

मकान नं 2, रतन कालोनी, जेल रोड,
धर्मकाटा के पास, करोंद भोपाल (म.प्र.)

(G-952)

आम सूचना

M/s MEGA TRANSPORT CORPORATION फर्म के साझेदारों द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल पंजीयन क्र. 01-01-01-00033-10 दिनांक 22-04-2010 है जिसमें कि

1. Abdul Waheed निवासी – H. No. 5, Pathar Wali Gali No. 1, Noor Mahal Road, Bhoi Pura, Bhopal (म.प्र.) दिनांक 26-03-2024 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये. उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी प्रकार का संबंध नहीं है. साथ ही फर्म में दिनांक 26-03-2024 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है. फर्म में 1 (एक) नये भागीदार को सम्मिलित / शामिल किया गया 1. Mohammad Uzair निवासी – H. No. 5, Pathar Wali Gali No 1, Noor Mahal Road, Bhoi Pura, Bhopal (म.प्र.) हैं, भागीदारी संशोधन विलेखानुसार सम्मिलित / शामिल साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे.

M/S MEGA TRANSPORT CORPORATION,

(ABDUL TAHIR)

Partner.

(G-953)

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी के पुत्र AYUSH MAHESHWARI के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश PRINCE MAHESHWARI दर्ज हो गया है, जबकि उसकी दसवीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण-पत्र आदि में उसका नाम AYUSH MAHESHWARI दर्ज है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में उसका नाम PRINCE MAHESHWARI के स्थान पर सही नाम AYUSH MAHESHWARI दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे AYUSH MAHESHWARI के नाम से ही जाना पहचाना जावे.

प्रार्थी

(UMESH MAHESHWARI)

(G-954)

पता-बी-111, आनन्द नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमंत बेलदार पुत्र श्री सत्यपाल बेलदार, एच-8, माही कालोनी, धार, जिला धार (म.प्र.) मेरा वास्तविक नाम हेमंत बेलदार है, आधार कार्ड में त्रुटिवश हेमंत अंकित हो गया है, अब मैं अपने वास्तविक नाम हेमंत बेलदार के नाम से जाना जाऊंगा. सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

पुराना नाम

नया नाम

(हेमंत)

(हेमंत बेलदार)

(G-955)

(HEMANT BELDAR)

नाम परिवर्तन

मैं, मैना बाई (MAINA BAI) सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मैना बाई (MAINA BAI) है जो कि सही है, परंतु मेरे आधार कार्ड में लिपिक त्रुटिवश मीना बाई (MINA BAI) दर्ज हो गया, जो कि गलत है. प्रकाशन उपरांत मुझे मैना बाई (MAINA BAI) के नाम से ही जाना, पहचाना और पुकारा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(मीना बाई)

(मैना बाई)

(MINA BAI)

(MAINA BAI)

पति स्व. श्री वामन,

निवासी-प्लाट नं. 204, जयभीम नगर, पोलीपाथर,

ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.).

(G-956)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S R S ASSOCIATES जो M-320, DARPAN COLONY, THATHIPUR, GWALIOR, M.P. में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0070-23 दिनांक 11-07-2023 है। जिसमें दिनांक 16-03-2024 को भागीदार सुरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह तोमर, निवासी-बी-105, माधव राव सिंधिया इन्क्लेव, थाटीपुर, ग्वालियर, म. प्र. की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से स्वतः पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 16-03-2024 को अंजना तोमर पत्नि स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर, निवासी-बी-105, माधव राव सिंधिया इन्क्लेव, थाटीपुर, ग्वालियर, म. प्र. फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं।

M/S R S ASSOCIATES,
(राहुल राना)
भागीदार.
M-320, DARPAN COLONY,
THATHIPUR, GWALIOR, M.P.

(G-957)

नाम परिवर्तन

हम अंकित घाटिया एवं दीपिका घाटिया, अपने पुत्र अयान घाटिया (Ayaan Ghatiya) का नाम परिवर्तित कर आदित घाटिया (Aadit Ghatiya) करना चाहते हैं। इस प्रकाशन के उपरांत हमारे पुत्र को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में आदित घाटिया (Aadit Ghatiya) के नाम से जाना, पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जावे।

(अंकित घाटिया)

पिता,
निवासी-33, गोवर्धन नाथ गली, सीतामऊ,
मंदसौर, मध्यप्रदेश.

(G-958)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट परगना व जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
प्र.क्र.0104-23-24-बी-121(ट्रस्ट गठन) भिण्ड, दिनांक 11 मार्च 2024

फार्म-4

[नियम (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) के अंतर्गत]

जैसा कि शक्ति सिंह सिसोदिया पुत्र श्री रामसिंह सिसोदिया, निवासी-वार्ड क्र. 32, महावीरगंज द्वारा (ऊँ श्री रामेश्वर शिव शक्ति महादेव मंदिर ट्रस्ट) गठन किए जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के जर्जे अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 20 मार्च 2024 को विचार में लिया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपयुक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : ऊँ श्री रामेश्वर शिव शक्ति महादेव मंदिर ट्रस्ट महावीर गंज, भिण्ड.

(G-959)

अखिलेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2024-वैशाख 13, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)